

## प्रेस नोट

दिनांक 17.07.2021

दुकान में कुम्बल लगाकर चोरी करने वाले गिरोह के 02 शातिर सदस्य सहित 01 बाल अपचारी रिपोर्टिंग चौकी मंडी थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से दुकान से चोरी किया गया सामान, चोरी करने के उपकरण व घटना कारित करने में प्रयुक्त ऑटो बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार जनपद में चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री संग्राम सिंह के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्रीमती अरुणा राय के नेतृत्व में दिनांक 16.07.2021 की रात्रि में रिपोर्टिंग चौकी प्रभारी उ0नि0 अजयदीप मय पुलिस टीम क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दुकान में कुम्बल लगाकर चोरी करने वाले गिरोह के तीन शातिर सदस्यों स्याना मार्ग से ग्राम जसनावली कलां की ओर जाने वाले मार्ग पर आम के बाग के पास चोरी का सामान बेचने के उद्देश्य से खड़ी है। इस सूचना पर तत्काल रिपोर्टिंग चौकी थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर आवश्यक बल प्रयोग कर तीन अभियुक्तों को समय करीब रात्रि 22.35 बजे गिरफ्तार दुकान से चोरी किया गया सामान, चोरी करने के उपकरण व चोरी की घटना कारित करने में प्रयुक्त ऑटो सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- राहुल पुत्र दुली चंद निवासी पैठे वाली गली म0नं0- 69 टीचर्स कॉलोनी, राजीव बिहार थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 2- सलीम पुत्र मौ0 जाहिद निवासी मौहल्ला मजीदपुर गली नं0- 08 थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 3- (बाल अपचारी)

### बरामदगी का विवरण-

- 1- बरामद चोरी किया गया रुपये/सामान- 1990 रुपये, प्लास्टिक का कट्टा जिसमें 04 पैकेट बड़े (पूडा) 502 पताका बीडी, 01 पैकेट पूडा सुन्दरी बीडी, BOUNCE कम्पनी के 03 बड़े पैकेट बिस्कीट जिसके अंदर 26 पैकेट भरे हैं व 4 पैकेट बड़े बिस्कीट T20 जिसमें 48 पैकेट भरे हैं। 03 पैकेट दिलबाग गुटखा एवं 03 पैकेट BB तम्बाकू, 02 पैकेट गोल्ड मोहर पान मसाला व 02 पैकेट जीरयल तम्बाकू, 20 पैकेट सिगरेट TOTAL व 20 पैकेट सिगरेट CAPSTAN व 20 पैकेट नमकीन उमंग कम्पनी व 02 सिलेन्डर एलपीजी भारत कम्पनी।
- 2- लोहे की राड, वाहन- CNG BAJAJ कम्पनी का ऑटो नं0- UP-37AT-3149  
गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 12.07.21 की रात्रि में ग्राम इमलिया थाना कोतवाली देहात निवासी संजय कुमार जिनकी स्याना रोड पर बुलेन्द फ्लोर मील के सामने पायल किराना स्टोर के नाम से दुकान है, में दुकान की छत में कुम्बल कर चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-1476/21 धारा 457/380 पंजीकृत है। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तगण ने अपने दो अन्य साथी के साथ मिलकर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने की स्वीकारोक्ति की गयी है जिनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

### अभियुक्त राहुल का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0-71/2019 धारा 380/457/427/511/411 भादवि थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।
- 2- मु0अ0सं0-80/2019 धारा 380/457/411 भादवि थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।
- 3- मु0अ0सं0-288/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।
- 4- मु0अ0सं0-402/2020 धारा 380/411 भादवि थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 5- मु0अ0सं0-409/2020 धारा 4/25 थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 6- मु0अ0सं0-531/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।
- 7- मु0अ0सं0-1476/2021 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली देहात नगर जनपद बुलन्दशहर।  
अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्रीमती अरुणा राय महिला निरीक्षक थाना कोतवाली देहात
- 2- उ0नि0 अजयदीप प्रभारी रिपोर्टिंग चौकी मण्डी, है0का0 यतिन कुमार, का0 नितेश कुमार, का0 सचिन कुमार, का0 चालक अमीर आलम